

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 629]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2021 — अग्रहायण 26, शक 1943

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 16 दिसम्बर 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 06-50/2013/वा.क(पं.)/पांच(83).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ पंजीयन तथा मुद्रांक सेवा(विज्ञप्त) भर्ती नियम, 1984 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. नियम 13 के उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

“(5) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जिला पंजीयक से वरिष्ठ जिला पंजीयक की पदोन्नति के संबंध में, अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 1 के कॉलम(3) में यथा उल्लिखित न्यूनतम अनुभव की कालावधि में, केवल कैलेण्डर वर्ष 2021 के लिये, अधिकतम 2 वर्ष की छूट दी जायेगी.”

उक्त संशोधन को ऐसे पढ़ा जायेगा तथा अर्थ लगाया जायेगा, जैसा कि इसमें पूर्वोक्त संशोधन हुआ ही नहीं था।

2. नियम 19 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“19. परीक्षा. — किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, प्रथमतः 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जायेगा.”

3. अनुसूची — एक एवं दो के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्: —

अनुसूची – एक
(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स लेवल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक, मुद्रांक	01	प्रथम श्रेणी	लेवल-14
2.	वरिष्ठ जिला पंजीयक (क) क्षेत्रीय (फील्ड) स्तर पर	02	प्रथम श्रेणी	लेवल-14
3.	जिला पंजीयक (क) क्षेत्रीय (फील्ड) स्तर पर (ख) मुख्यालय स्तर पर	19 01	द्वितीय श्रेणी	लेवल-12

अनुसूची – दो
(नियम 6 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत	
			सीधी भरती द्वारा [नियम 6(1)(क) देखिए]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1) (ख) देखिए]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग	छत्तीसगढ़ पंजीयन तथा मुद्रांक (विज्ञप्त) सेवा			
	1. उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक, मुद्रांक	01	-	100%
	2. वरिष्ठ जिला पंजीयक (अ) क्षेत्रीय (फील्ड) स्तर पर	02	-	100%
	3. जिला पंजीयक (अ) क्षेत्रीय (फील्ड) स्तर पर (ब) मुख्यालय स्तर पर	19 01	50%	50%

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, सचिव.